



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 फाल्गुन 1936 (श0)
(सं0 पटना 360) पटना, सोमवार, 16 मार्च 2015

सं0 08/आरोप-01-76/2014,सांप्र0-485
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
9 जनवरी 2015

विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2201, दिनांक 14.02.2014 द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना एवं सामान्य इन्दिरा आवास योजना में धोखाधड़ी, जालसाजी तथा अन्य अनियमितताओं पर दर्ज प्राथमिकी (महिषी थाना कांड सं0-19/12, दिनांक 23.02.2013) के उपरान्त फरार रहने संबंधी प्रतिवेदित आरोपों के लिए निलंबित, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, महिषी, (सहरसा), श्री परमानन्द साह, बि०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-1231/2011) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9 (7) के आलोक में तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।

2. श्री साह सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान (पदस्थापन की प्रतीक्षा हेतु) करेंगे।
3. श्री साह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों की सम्यक् जाँच हेतु अलग से विभागीय कार्यवाही संचालित की जायेगी।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
केशव कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 360-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>